

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद मुरादाबाद



दिनांक-18.07.2022

1-चरस सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार,थाना बिलारी:-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 18.07.2022 को उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना बिलारी ने मय हमराही पुलिसबल के आरोपी इरफ़ान पुत्र अलीजान निवासी ग्राम ग्वालखेड़ा थाना बिलारी,मुरादाबाद को 250 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में अभियुक्त इरफ़ान उपरोक्त के विरूद्ध थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-313/22 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

2.मारपीट कर युवती के सर में चोट मारने, जिससे युवती की मृत्यु हो जाने का वांछित आरोपी गिरफ्तार,थाना छजलैट:-

अवगत कराना है कि दिनांक 17.07.2022 को वादिनी निवासी थाना मझोला क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री के साथ मारपीट कर सर में चोट मार देने, जिससे वादिनी की पुत्री की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना छजलैट पर दी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-157/2022 धारा-304 भादवि व 3(2)(v) sc/st act पंजीकृत किया गया। उक्त के संबंध में आज दिनांक 18.07.2022 को उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना छजलैट द्वारा मय हमराही पुलिसबल के अभियुक्त सुधीर पुत्र बलराम सिंह निवासी खिडका मुजाहिद पुर थाना स्योहारा,बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।

3.नशीले इंजेक्शनों के साथ दो शातिर तस्कर गिरफ्तार,थाना सिविल लाइन्स:-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 18.07.2022 को उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना सिविल लाइन्स द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपीगण 1.विनीत उर्फ विक्की पुत्र रमेश कुमार निवासी मौ0 सराय खालसा थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद। 2. फईम पुत्र फुरकान निवासी मौ0 करूला थाना कटघर,मुरादाबाद को मय CONTRAMAL 100 INJECTION 09X02ML DIAZELAB INJECTION 35X02ML, LEEGESIC INJECTION 25X02ML, 02 अदद मोबाईल, 4500 रू0 नकद सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0सं0-571/2022 धारा-8/21/22 NDPS ACT पंजीकृत किया गया।

4.नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित आरोपी गिरफ्तार,थाना भोजपुर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 18.07.2022 को वादी निवासी थाना भोजपुर क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा परिजनों द्वारा मारपीट,गाली-गलौज करने के सम्बन्ध में दी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-233/22 धारा-363/366/323/504 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में आज दिनांक 18.07.2022 को उ0नि0 श्री अफजाल अहमद थाना भोजपुर द्वारा मय हमराही पुलिसबल के अभियुक्त नब्बु पुत्र वाहिद हुसैन निवासी ग्राम चक -कचनाल थाना भगतपुर,मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

5. फर्जी तरीके से लोन व बीमा कराने के नाम पर लोगों से ठगी करने के 02 अभियुक्तों को थाना मझोला पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौके से 01 लैपटॉप, 08 रजिस्टर, 04 मोबाइल फोन व 01 फाइल मय कागजात किये बरामद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन्स के कुशल नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण में सक्रिय एवं क्रियाशील अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 17.07.2022 को थाना मझोला पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुये थाना मझोला क्षेत्रान्तर्गत सेक्टर 2 बुद्धि बिहार आवास विकास में रेन्यू बाय कम्पनी के नाम से फर्जी ऑफिस चला रहे 02 अभियुक्तगण क्रमशः 1. जैनेन्द्र उर्फ जैनु पुत्र श्री अनिल कुमार निवासी ग्राम लालावाला थाना ठाकुरद्वारा हाल निवासी बुद्धि विहार आवास विकास थाना मझोला, मुरादाबाद 2. अमित कुमार पुत्र श्री धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम भाटैल थाना हाफिजपुर, हापुड हाल निवासी बुद्धि विहार आवास विकास थाना मझोला, मुरादाबाद को 01 लैपटॉप, 08 रजिस्टर, 04 मोबाइल फोन व 01 फाइल मय कागजात सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मझोला पर मु0अ0सं0-589/22 धारा- 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया ।

पूछताछ विवरण –

पूछताछ करने पर दोनों अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि वह दोनो अपने दो अन्य साथी रवि चौधरी पुत्र श्री महेन्द्र चौधरी निवासी सद्दीक नगर थाना सैफनी, रामपुर तथा कावेन्द्र सिंह पुत्र नामालूम निवासी ग्राम नन्हूवाला थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद के साथ मिलकर फर्जी तरीके से लोन व बीमा कराने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। जो लैपटॉप उनसे बरामद हुआ। उसी के माध्यम से फर्जी बीमा व लोन के कागजात तैयार करते थे और उसी लैपटॉप के अन्दर उनके आफिस का सम्पूर्ण डाटा है तथा एक सफेद फाईल के अन्दर से जो कागजात आपने बरामद किये हैं, ये वही फर्जी कागजात हैं जिनसे, वो लोगो से ठगी करते थे । जो हाथ के लिखे हुये 04 पेज है, इन पेजो पर उन दोनो अभियुक्तगण द्वारा फर्जी तरीके से कमाये गये रुपयो का हिसाब किताब लिखा हुआ है तथा जिस पेपर पर एकाउण्ट नम्बर लिखे है इन्ही एकाउण्ट नम्बरो में वह लोगो के साथ धोखाधडी करके रुपये जमा कराते थे तथा रजिस्टरो के बारे में बताया कि इन रजिस्टरो के अन्दर उन लोगो की डिटेल है जिन्हे वह टारगेट बनाते थे वह इस कार्य को काफी समय से कर रहे थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

1 . जैनेन्द्र उर्फ जैनु पुत्र श्री अनिल कुमार निवासी ग्राम लालावाला थाना ठाकुरद्वारा हाल निवासी बुद्धि विहार आवास विकास थाना मझोला जनपद मुरादाबाद ।

2 . अमित कुमार पुत्र श्री धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम भाटैल थाना हाफिजपुर जनपद हापुड हाल निवासी बुद्धि विहार आवास विकास थाना मझोला जनपद मुरादाबाद ।

फरार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. रवि चौधरी पुत्र श्री महेन्द्र चौधरी निवासी सद्दीक नगर थाना सैफनी, रामपुर ।
2. कावेन्द्र सिंह पुत्र नामालूम निवासी ग्राम नन्हूवाला थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ।

बरामदगी का विवरण –

01 लैपटॉप, 08 रजिस्टर, 04 मोबाइल बरामद, 01 फाइल ।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 589/22 धारा 420/467/468/471 भादवि

नोट:- अभियुक्तगण के अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही थी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम के सदस्य ---

1. श्री धनन्जय सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मझोला जनपद मुरादाबाद ।
2. उ0नि0 श्री अखिलेश गंगवार थाना मझोला, मुरादाबाद ।
3. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार थाना मझोला, मुरादाबाद ।
4. का0 समीर खान, थाना मझोला, मुरादाबाद ।
5. का0 अहमद अली, थाना मझोला, मुरादाबाद ।
6. का0 प्रशान्त कुमार, थाना मझोला, मुरादाबाद ।
7. का0 आशीष नायडू, थाना मझोला, मुरादाबाद ।